

# PURSHOTTAM INVESTOFIN LIMITED

Regd. Off: L-7, Menz Floor, Greenpark Extension, New Delhi -110016

Ph No. 011-46067802 CIN: L65910DL1988PLC033799 GSTIN: 07AAACD0419K1ZX

Email ID: [purshottaminvestofin@gmail.com](mailto:purshottaminvestofin@gmail.com)

Website: [www.purshottaminvestofin.in](http://www.purshottaminvestofin.in)

**BSE Limited**  
**Corporate Relationship Department**  
**1st Floor, New Trading Ring,**  
**Rotunda Building, P.J. Towers,**  
**Dalal Street, Fort**  
**Mumbai - 400 001.**

Dear Sir,

**Subject: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as 'Listing Regulations')**

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of notices given to shareholders informing them about the meeting of Board of Directors of the Company to be held on Thursday, 16<sup>th</sup> July, 2020 published in the following newspapers on 8th July, 2020:

1. Financial Express in English Language;
2. Jansatta in Hindi Language.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours truly,

For **Purshottam Investofin Limited**

For **Purshottam Investofin Ltd.**

**Ankit Gupta**  
**Company Secretary**

Dated: 08.07.2020

### STATE BANK OF INDIA

STRESS ASSETS MANAGEMENT BRANCH CHANDIGARH  
SCO-99-107, SECTOR-8C, CHANDIGARH-160018

**Publication of Notice regarding possession of property u/s 13(4) of SARFAESI Act 2002**

Notice is hereby given under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, a demand notice was issued on the dates mentioned against each account and stated hereinafter calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Act on the dates mentioned against each account.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the STATE BANK OF INDIA for an amount and interest thereon.

Name of Account/Borrower & Address	Name of Director/Owner of property	Description of the property mortgaged/charged	Date of Demand Notice	Date of possession	Amount Outstanding
M/s Buttons Private Limited, Regd. Office: 48/52, Punjabi Bagh, New Delhi-110026, Unit at: 43 KM Stone, Near H.P. Service Station, Shiv Udyog Vihar, Village-Asodha, Siwan, Delhi-Rohtak Road T e h s i l Bahadurgarh, Distt. Jhajjar, Haryana-124057, Unit at: 2785/A, Opposite Ritambhara Public School, Sunder Nagar, Ludhiana-141007	1). Shri Sandeep Jain S/o Shri Deputy Kumar Jain (Director cum Guarantor). 2). Shri Ripan Jain S/o Shri Davinder Kumar (Director cum Guarantor). 3). Shri Amit Jain S/o Davinder Kumar (Guarantor). 4). Smt. Sneh Lata Jain W/o Shri Davinder Kumar Jain (Guarantor). 5). Smt. Archana Jain W/o Shri Sandeep Jain (Guarantor). 6). Smt. Ruchi Jain W/o Shri Ripan Jain (Guarantor). 7). M/s Bhomia Chem (India) a Partnership Firm.	1). Entire current assets of the Company (present as well as future) including raw materials consumable stores and spares, stock in process, finished, bills, book debts and receivables etc. 2). Entire fixed assets (present as well as future) of the Company. 3). All that part and parcel of properties as per detail given below:- (a) Factory Land & Building Constructed on Land measuring 4Kanal-0Marla, Comprised in Khewat No. 213 min. (Present Khewat No. 324/278), Khatauni No. 253 (Present Khatauni No. 352) Kila NO. 24/15/1 (0-7), 14/1/min North - East (3-13) situated Near HP Service Station, Shiv Udyog Vihar Delhi - Rohtak Road, Revenue Estate Village - Ashoda, Siwan, Tehsil Bahadurgarh, Haryana - 124507 vide sale deed No. 2181 dated 13.08.2001, in standing in the name of M/s Bhomia Buttons Pvt Ltd, through Sh. Sandeep Jain, Sh. Ripan Jain and Smt. Kamlesh Jain. (b) Industrial Plot measuring 2kanal-3Marla, comprised in Khewat No. 213min. (Present Khewat No. 337/290 & khatauni No. 365) Kila No. 24/14/2(2-0), 15/2(0-3), situated near HP service Station, Shiv Udyog Vihar Delhi - Rohtak Road, Revenue Estate Village - Ashoda, Siwan, Tehsil Bahadurgarh, Haryana - 124507 vide sale deed No. 2085 dated 26.07.2002, standing in the name of M/s Bhomia Cam(India), through its partners Sh. Amit Kumar Jain and Smt. Archana Jain.	20.02.2020	06.07.2020	₹18,74,53,016/- as on 19.02.2020 and future interest at contract rate with effect from 20.02.2020 on the aforesaid amount together with all incidental expenses, costs, charges etc.
Archana Jain W/o Shri Sandeep Jain (Guarantor). Smt. Ruchi Jain W/o Shri Ripan Jain (Guarantor). M/s Bhomia Chem (India) a Partnership Firm.	Shri Sandeep Jain S/o Shri Sandeep Jain (Guarantor). Shri Ripan Jain S/o Shri Ripan Jain (Guarantor). M/s Bhomia Chem (India) a Partnership Firm.	4). All that part and parcel of properties as per detail given below:- a) Entire Back Side Flat on First Floor (Measuring 1350.00 sq. ft.), A part of Free hold property built on Residential Plot of land bearing No.48, on Road no 52, Situated in the Layout Plan of the REFUGEES CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD, approved locally known as Punjabi Bagh West, New Delhi 110026 vide Sale Deed No. 2431 dated 07.05.2007 standing in the name of Sh. Sandeep Jain S/o Sh. Deputy Kumar Jain & Smt. Archana Jain W/o Sh. Sandeep Jain. b) Entire Back Side Flat on Second Floor (Measuring 1400.00 sq. ft.), A part of Free hold property built on Residential Plot of land bearing No.48, on Road no 52, Punjabi Bagh West New Delhi 110026 vide sale Deed No. 1738 dated 27.04.2015 standing in the name of Sh. Sandeep Jain S/o Sh. Deputy Kumar Jain & Smt. Archana Jain W/o Sh. Sandeep Jain.	06.07.2020	06.07.2020	₹18,74,53,016/- as on 19.02.2020 and future interest at contract rate with effect from 20.02.2020 on the aforesaid amount together with all incidental expenses, costs, charges etc.

Place: Chandigarh Date: 06.07.2020 Authorised Officer

**PURSHOTTAM INVESTOFIN LIMITED**  
Regd. off.: L-7, Menz Floor, Green Park Extension South Delhi - 110016  
CIN: L65910DL1989P033799  
Website: www.purshottaminvestofin.in  
Email: purshottaminvestofin@gmail.com  
Ph. No. 011-46067801

**NOTICE**

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of Purshottam Investofin Limited will be held on Thursday, 16<sup>th</sup> July, 2020 at 03:00 P.M. at its Registered office inter-alia to consider & approve the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2020 and to consider any other item by permission of the Board.

Further, in compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in the shares of the company is closed from July 1, 2020 and would remain closed until 48 hours after the said financial results are declared to the stock exchange.

The said notice may be accessed on the Company website at <http://www.purshottaminvestofin.in> and may also be accessed at stock exchange website at <http://www.bseindia.com>.

For Purshottam Investofin Limited  
Date: 07.07.2020  
Place: Delhi  
Ankit Gupta  
Company Secretary

**BSE LIMITED**  
CIN: L67120MH2005PLC155188  
Regd. Office: 25<sup>th</sup> Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001.  
Tel: 022 2272 1233/34  
Email: bse.shareholders@bseindia.com • Website: www.bseindia.com

**NOTICE OF THE FIFTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS ("NOTICE")**

**NOTICE** is hereby given that the Fifteenth Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of the Company will be held on Thursday, July 30, 2020 at 3:00 P.M (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") with presence of physical quorum to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

The Notice convening AGM along with Annual Report of the Company has been sent through electronic mode on July 7, 2020 to all Shareholders of the Company whose email-ids were registered with Company/Depository Participant(s). The Copy of Annual Report along with copy of Notice is also available on the Company's website at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) (where the company is listed) and <https://evoting.karvy.com/> (Agency providing e-voting facility).

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Company has fixed Thursday, July 23, 2020 as the 'Record Date' for purpose of payment of final dividend on equity shares of the Company. The final dividend as recommended by the Board, if declared at the AGM, will be paid to those Shareholders whose names appear as at the close of business hours on Thursday, July 23, 2020, based on beneficial ownership details received from Central Depository Services (India) Limited, National Securities Depository Limited and Register of Members maintained by Registrar and Transfer Agent.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is providing to its Shareholders a facility to exercise their rights to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM of the Company using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ('remote e-voting').

The remote e-voting facility shall commence on Monday, July 27, 2020 from 9:00 A.M. (IST) and ends on Wednesday, July 29, 2020 at 5:00 P.M. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond said date and time. Shareholders of the Company holding shares either in physical form or in Demat form, as on the cut-off date i.e., Thursday, July 23, 2020 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting during the AGM (e-voting). Shareholders who have casted their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at AGM.

Members are provided with a facility to attend the AGM through electronic platform provided by KFin Technologies Private Limited. Members may access the platform to attend the AGM through VC at <https://emeetings.kfintech.com> by using the remote e-voting credentials. The link for the AGM will be available in the Members login where the "Event" and the "Name of the Company" can be selected.

Detailed procedure of remote e-voting/ e-voting and attending the AGM through VC / OAVM has been provided in the Notice of AGM. Any person who becomes Shareholder of the Company after sending the Notice of the AGM and holding shares as of the Cut-Off date may follow the procedure for obtaining User ID and Password as provided in the Notice of the AGM.

In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of <https://evoting.karvy.com/> or contact Shri Sri Sai Karthik Tikkisetti, Manager - Corporate Registry (Unit: BSE Limited) of KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower - B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nankramguda, Hyderabad - 500 032 or send an email at [inward.ris@kfintech.com](mailto:inward.ris@kfintech.com) and [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) or call on 040-6716 2222 or 1-800-3454-001 for any further clarifications.

By Order of the Board of Directors  
For BSE Limited  
Sd/-  
Prajakta Powle  
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai  
Date: July 7, 2020

**"IMPORTANT"**

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**Phillips Carbon Black Limited**  
CIN: L23109WB1960PLC024602  
Regd. Office: 31, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700001  
Tele: +91 33 6625 1461 - 64, Fax: +91 33 2243 6681  
Corporate Office: RPSG House, 2/4 Judges Court Road, 4th Floor, Kolkata - 700027, Tele: +91 33 4087 0500/0600  
E-mail: [pcbl@rpsg.in](mailto:pcbl@rpsg.in), Web: [www.pcbltd.com](http://www.pcbltd.com)

**NOTICE OF THE 59TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**

1. Notice is hereby given that the Fifty Ninth Annual General Meeting (59th AGM) of the Members of the Company will be convened on Thursday, the 30th day of July, 2020 at 10:30 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020, respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circular. The requirements of sending physical copy of the Notice of the 59th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars/s and SEBI circular.

2. The Notice of the 59th AGM and the Annual Report of the Company including the financial statements for the financial year ended 31st March, 2020 ("Annual Report") has been sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, namely, Link Intime India Private Limited ("LTI") or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circular/s and the SEBI Circular. The requirements of sending physical copy of the Notice of the 59th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars/s and SEBI circular.

3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut off date of 23rd July, 2020 may cast their vote electronically, as set out in the Notice of the 59th AGM through electronic voting system ("remote e-voting") of National Securities Depository Limited (NSDL).

4. In line with the MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the 59th AGM of the Company has been uploaded on the website of the Company at [www.pcbltd.com](http://www.pcbltd.com). The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges, namely, National Stock Exchange (NSE) at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), Bombay Stock Exchange (BSE) at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and Calcutta Stock Exchange (CSE) at [www.cse-india.com](http://www.cse-india.com) respectively and the AGM Notice is also on the website of NSDL (Agency for providing the Remote e-Voting facility) at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

5. The remote e-voting period begins on the 27th day of July, 2020 at 9:00 A.M (IST) and ends on the 29th day of July, 2020 at 5:00 P.M (IST). During this period, Members of the Company, holding shares in the physical or dematerialized form, as on the cut-off date of Thursday, the 23rd day of July, 2020, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

6. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, the 23rd day of July, 2020 may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [kolkata@linkintime.co.in](mailto:kolkata@linkintime.co.in).

7. Members are requested to express their views/send their queries in advance mentioning their name, DP ID and Client ID number/Folio No., email ID, mobile no. at [pcbl.agm2020@rpsg.in](mailto:pcbl.agm2020@rpsg.in) till 4 p.m. (IST) on Tuesday, 28th July, 2020. Members who would like to ask questions during the Fifty-ninth AGM of the Company need to register themselves as a speaker by sending their requests preferably along with their questions mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number, email id, mobile number, to the Company's email address at [pcbl.agm2020@rpsg.in](mailto:pcbl.agm2020@rpsg.in) in latest by 4 p.m. (IST) on Tuesday, 28th July, 2020.

8. Members holding shares in physical form who have not registered their email address with the Company / Company's RTA / Depository, can get the same registered and obtain Notice of the 59th AGM of the Company along with the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2020 and / or login details for joining the 59th AGM of the Company through VC/OAVM facility including e-voting, by sending scanned copy of the following documents by email to the Company's RTA's email i.d., viz. [kolkata@linkintime.co.in](mailto:kolkata@linkintime.co.in) or Company's email i.d., viz. [pcbl.investor@rpsg.in](mailto:pcbl.investor@rpsg.in) :  
a) a signed request letter mentioning your Name, Folio Number and Complete Address;  
b) self attested scanned copy of the PAN Card;  
c) self attested scanned copy of any document (such as Aadhar Card, Driving License, Voter Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company).

9. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call toll free no.: 1800-222-990 or send a request at or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager/Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, Trading World, 4<sup>th</sup> Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013 at telephone no. 022-24994360/022-24994545 or E-mail id [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).

The aforesaid information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular.

For Phillips Carbon Black Limited  
Kaushik Mukherjee  
Company Secretary

Place:- Kolkata  
Date:-07.07.2020

**SBI Infra Management Solutions Pvt Ltd**  
(WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SBI)  
Ground floor, beside Commercial Branch, SBI LHO Campus, Kofl, Hyderabad-95, Ph: 040-23466319, 23466346

**PRE-QUALIFICATION NOTICE**

SBI Infra Management Solutions Pvt. Ltd. (SBIMIS) on behalf of Premises & Estate Department, Local Head Office, State Bank of India, Hyderabad invites applications for pre-qualification of Civil Contractors for proposed CONSTRUCTION OF ADMINISTRATIVE OFFICE BUILDING FOR SBI at Hyderabad. The details are as under:-

Sr.No	Name of the work	Tender ID	Estimation ₹	From	To
1	Construction of Administrative Office Building for SBI at Knowledge City Hyd.	HYD222007079	37,00,00,000.00	08.07.2020	30.07.2020

For further details log on to Bank's website [bank.sbi/links/ProcurementNews](http://bank.sbi/links/ProcurementNews). SBI / SBIMIS reserves the right to accept/reject any/all tenders without assigning any reason. Corrigendum/Amendment, if any would be hosted on the website only. Hence, prospective applicants are advised to visit website regularly for above purpose.

Place: Hyderabad  
Date: 08.07.2020  
Vice President & Circle Head  
SBIMIS, Hyderabad

**DELHI JAL BOARD: GOVT. OF N.C.T OF DELHI**  
**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (PROJECT) W-III**  
**A- BUILDING, VARUNALAYA, JHANEWALAN, NEW DELHI-110005**  
NIT NO. 01(2020-21)

S. NO.	Name of work	Amount put to tender	Earnest money	Tender Fee	Date of release of tender	Last date/time of submission of tender
1	Installation of Tube Wells in Flood Plain of Pala and other suitable locations for augmentation of E&M Work- Item Rate Basis	Civil Work- Rs. 40,48,95,141/- E&M Work- Rs. 10,00,00,000/-	Rs. 81,40,000/- (minimum Rs. 20 Lac. to be transmitted through RTGS and balance through BG)	Rs. 1500/- (Non-Refundable)	07.07.2020	05.08.2020 up to 3:05 PM

Note: Any further amendment/ corrigendum made in this NIT will be uploaded and can only be seen on website <http://govtprocurement.delhi.gov.in>  
ISSUED BY PRO (WATER)  
Advt. No. J.S.V. 95/2020-21

Sd/-  
E.E. (Project) W-III

**INDIAN ACRYLICS LIMITED**  
CIN: L24301PB1986PLC006715  
REGD. OFFICE: VILLAGE - HARKISHANPURA, SUB-TEHSIL BHAWANIGARH, DISTT. - SANGRUR (PB)-148026.  
Website: [www.indianacrylcs.com](http://www.indianacrylcs.com); Email ID: [shares@indianacrylcs.com](mailto:shares@indianacrylcs.com)

**EXTRACT OF STANDALONE & CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31/03/2020**

Sr. Particulars	STANDALONE		CONSOLIDATED		STANDALONE		CONSOLIDATED	
	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended	Year Ended
	31/03/20	31/12/19	31/03/19	31/03/20	31/12/19	31/03/19	31/03/20	31/03/19
	(AUDITED)	(UNAUDITED)	(AUDITED)	(AUDITED)	(UNAUDITED)	(AUDITED)	(AUDITED)	(AUDITED)
1 Total income from operations	16943.94	15017.10	24927.66	16964.80	15017.10	24933.91	74847.24	73721.55
2 Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary items)	394.08	89.47	542.45	396.23	97.83	542.51	1120.87	-1020.70
3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	343.73	89.47	539.84	396.23	97.83	539.90	1120.87	1230.65
4 Net Profit for the period After Tax (After Extraordinary and/or exceptional items)	343.73	89.47	489.02	345.88	97.83	489.08	1070.52	1159.83
5 Total Comprehensive income for the period (comprising profit/(loss) for the after tax) and other comprehensive income (after tax)	351.75	101.44	473.59	348.82	98.44	473.61	1086.31	1160.32
6 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Shares Rs.10/- each) accounting year.	13532.00	13532.00	13532.00	13532.00	13532.00	13532.00	13532.00	13532.00
7 Earning per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)	0.25	0.07	0.35	0.26	0.07	0.35	0.79	0.84
Basic & Diluted	0.25	0.07	0.35	0.26	0.07	0.35	0.79	0.84

The above is an extract of the details format of Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of Financial Results are available on the Stock Exchange website: [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website: [www.indianacrylcs.com](http://www.indianacrylcs.com)

Place: Chandigarh  
Date: 07/07/2020  
For and on behalf of Board of Directors  
MANAGING DIRECTOR

**BSE LIMITED**  
CIN: L67120MH2005PLC155188  
25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001  
Tel. No.22721233/34 Fax No.22721003 www.bseindia.com  
CIN No. : U67120MH2005PLC155188

**NOTICE**

Notice is hereby given that the following trading members of BSE Limited (Exchange) has requested for the surrender of its trading membership of the Exchange:

Sr.No.	Name of the Trading Members	SEBI Regn. No.	Closure of business w.e.f.
1	JINDAL FUTURES PVT. LTD.	INZ00010637	24/09/2019
2	M. D. SECURITIES PVT. LTD.	Exchange Registration	15/02/2019

The constituents of the above mentioned trading members are hereby advised to lodge complaints, if any, immediately (in the prescribed complaint form) within 3 (three) months from the date of this notification. Kindly note that no such complaints filed beyond the aforesaid period shall be entertained by the Exchange against the above mentioned trading members and it shall be deemed that no such complaints exist against the above mentioned trading members, or such complaints, if any, shall be deemed to have been waived. The complaints filed against the above mentioned trading members will be dealt with in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange. All the relevant papers may be sent to BSE Ltd., Department of Investor Services, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001. (The complaint forms can be downloaded from [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) > Investors > Investors Grievances > (b) Investors' Grievances against BSE's Trading Members > Complaint Form OR may be obtained from the Exchange office at Mumbai and also at the Regional Offices).

For BSE Limited  
Sd/-  
Sr. General Manager  
Membership Operations

Place: Mumbai  
Date: 8<sup>th</sup> July, 2020

**TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD.**  
Regd. Address: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013. Branch Address: B-36, 1st & 2nd Floor, Lalpat Nagar - Part 2, Above HDFC Bank, New Delhi 110024

**SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY**  
(Under Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002)

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the below Borrower/ Co-Borrower that the below described immovable property mortgaged to Tata Capital Housing Finance Ltd. (Secured Creditor), the Physical Possession of which has been taken by the Authorized Officer of Tata Capital Housing Finance Ltd., will be sold on "As is where is" & "As is what is" and "Whatever there is" for recovery of total sum Borrowers & Co-Borrowers. The Reserve Price and the Earnest Money Deposit is mentioned below.

Whereas the sale of secured asset is to be made to recover the secured debt and whereas there was a due of a sum including all costs, interest etc., Notice is hereby given that, in the absence of any postponement/ discontinuance of the sale, the said property shall be sold by E-Auction at B-36 1st & 2nd Floor Lalpat Nagar - Part 2 Above HDFC Bank New Delhi 110024. The sealed E-Auction for the purchase of the property along with EMD Demand Draft shall be received by the Authorized Officer of the TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD as per the below mentioned date schedule. The sale of the property will be in "As is where is condition" and the liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have been ascertained, are specified in the Schedule.

Sr. No.	Loan Account No.	Name of Obligor(s)/ Legal Heir(s)/Legal Representative(s)	Outstanding Dues as per Demand Notice	Description of Secured Assets	Type of Possession	Reserve Price Earnest Money	Last Date for the submission of EMD	Date & Time of E-Auction	Date & Time of Inspection of Property
1.	9263868 & 9268765	Mr. DEEPAK JASSAL (Borrower) & Mrs. SUNITA JASSAL (Co-Borrower)	Rs. 36,19,387/- as on 16-Nov-2018	Item No. 1.- All That Flat No. 6, on Ground Floor, at Executive Block, with Roof Rights Covered area of 945 Sq. Ft. i.e. 87.79 Sq Mtr, Alakanda Apartment, T.H.Awas Colony, Rampuri, Village- Chikambarpur, Pargana- Loni, Tehsil & Dist- Ghaziabad, Sector-7, Ghaziabad, Uttar Pradesh.	Physical	Rs. 34,87,050/- Rs. 3,48,705/-	24-July-2020 till 5 P.M.	25-July-2020 at 2 P.M. with limited extension of 10 minutes each	20-July-2020
2.	9420391	Legal Heirs Of Late Shri. Mohan Lal (Borrower) & Mr. Manish Kumar Jinhof (Co-Borrower)	Rs. 10,37,203/- as on 27-Feb-2017	Item No. 1.- Detailed address of the property franced is Flat No. 11, LIG, 2nd Floor, Sector-34, Pocket-1, Block B-21 Road, Rohini, Delhi - 110085	Physical	Rs. 14,25,600/- Rs. 1,42,560/-	06-August-2020 till 5 P.M.	07-Aug-2020 at 2 P.M. with limited extension of 10 minutes each	20-July-2020
3.	9516254	Mr. Dattatraya Shirke (Borrower) & Mr. Santosh Kumar Singh (Co-Borrower)	Rs. 31,48,315/- as on 22-Jan-2018	All piece and parcel of Part of Item No. 6, on Residential Flat No. 607, on 8th Floor, (Without roof rights), having super area 856 Sq.ft. i.e. 79.52 Sq. Mtr., consisting of as per annexed map in "RATTAN JYOTI", built on Group Housing Plot no. 20, residential colony, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad Tehsil & District Ghaziabad (U.P.)	Physical	Rs.46,22,400/- Rs. 4,62,240/-	24-July-2020 till 5 P.M.	25-July-2020 at 2 P.M. with limited extension of 10 minutes each	20-July-2020

The description of the property that will be put up for sale is in the Schedule. The sale will also be stopped if, amount due as aforesaid, interest and costs (including the cost of the sale) are tendered to the Authorized Officer or proof is given to his satisfaction that the amount of such secured debt, interest and costs has been paid. At the sale, the public generally is invited to submit their tender personally. No officer or other person, having any duty to perform in connection with this sale shall, however, directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold. If the Borrower pays the amount due to the TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD in full before the date of sale, the sale is liable to be stopped. The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and to the following further conditions:

The E-auction will take place through [www.tatacapitalhousingfinance.com](http://www.tatacapitalhousingfinance.com) or Auctioneer's Mobile App (Android).

1. The particulars specified in the Schedule herein below are stated to be the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. In the event of any dispute arising as to the amount bid, or as to the bidder, the lot shall on any given day be put up to auction. 2. The property shall not be sold below the Reserve Price. 3. Bid Increment Amount will be: Rs.10,000/- . 4. All the Bids submitted for the purchase of the property shall be accompanied by Earnest Money as mentioned above by way of a Demand Draft favoring the TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD, payable at Delhi. The Demand Drafts will be returned to the unsuccessful bidders. 5. The highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot provided always that he is legally qualified to bid and provided further that the amount bid by him is not less than the reserve price. It shall be in the discretion of the Authorized Officer to decline acceptance of the highest bid when the price offered appears so immediately inadequate as to make it inadvisable to do so. 6. For reasons recorded, it shall be in the discretion of the Authorized Officer to adjourn/discontinue the sale. 7. The person declared to be the purchaser shall, immediately after such declaration, deposit twenty-five per cent of the amount of the purchase money to the Authorized Officer and, in default of such deposit, the property shall forthwith be put up again and resold. 8. In case the initial deposit is made as above said, the balance amount of the purchase money payable shall be paid by the purchaser to the Authorized Officer on or before the 15th day from the date of confirmation of the sale of the property, exclusive of such day, or if the 15th day is a Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day. In default of payment within the period mentioned above, the property shall be resold, after the issue of a fresh proclamation of sale and all amounts deposited till then shall be stand forfeited by the TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may be subsequently sold. The property shall be resold to the discretion of the Authorized Officer. 9. Details of any encumbrances, known to the TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD, to which the property is liable: Nil. Claims, if any, which have been put forward to the property and any other known particulars bearing on its nature and value: Nil. Nothing other than the above. 10. For details, help, procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the Service Provider, M/s e-Procurement Technologies Limited (Auctioneer Type), Name: Mr.K Raju - 9002715034 & Mr. Ram Sharma - 079-61200595 Email ID: [wauctioning.net@ramprasad@auctioning.net](mailto:wauctioning.net@ramprasad@auctioning.net), 12. TDS of 0.75 % will be applicable and payable by the highest bidder with the declared bid amount. The payment need to be deposited by highest bidder in the PAN of the owner / borrower(s) and the copy of the challan shall be submitted to our company. 13. For detailed terms and conditions of the Sale, please refer to the link provided in secured creditor's website i.e. 1. <https://bit.ly/3gtLufL>, 2. <https://bit.ly/2VKYKoh>, 3. <https://bit.ly/2VKYKoh>

Date:- 07.07.202

